



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 75 राँची, गुरुवार, 12 माघ, 1939 (श०)
1 फरवरी, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

8 दिसम्बर, 2017

संख्या-5/आरोप-1-165/2017 का.- 12014 -- श्रीमती रजनी रेजीना इंदवार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5338, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, स्वेच्छाचारित एवं अनुशासनहीनता संबंधी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराते हुए श्रीमती इंदवार को निलंबित करने एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी।

2. उक्त आरोपों हेतु श्रीमती इंदवार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया जाता है। जहाँ वे प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।
